



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

19 श्रावण 1931 (श०)
(सं० पटना 412) पटना, सोमवार, 10 अगस्त 2009

विधि विभाग

अधिसूचना

10 अगस्त 2009

सं० एल०जी०-1-13/2009/लेज-55— बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित निम्नलिखित अधिनियम, जिसपर राज्यपाल दिनांक 7 अगस्त 2009 को अनुमति दे चुके हैं, इसके द्वारा सर्व साधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
दिलीप कुमार सिन्हा,
सरकार के संयुक्त सचिव।

[बिहार अधिनियम 7, 2009]

बिहार आकस्मिकता निधि (संशोधन) अधिनियम, 2009

प्रस्तावना:—बिहार आकस्मिकता निधि अधिनियम, 1950 (बिहार अधिनियम 19, 1950) का संशोधन करने के लिए अधिनियम।

चूंकि राज्य में अनियमित मानसून एवं भू-जल स्तर गिरने के कारण कृषि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है तथा पेयजल की समस्या उत्पन्न हो गयी है एवं कुछ क्षेत्रों में बाढ़ आने की आशंका है और चूंकि राहत एवं पुनर्वास के उपायों को आपात और व्यापक पैमाने पर करने की आवश्यकता हो सकती है।

इसलिए अब, भारत गणराज्य के साठवें वर्ष में बिहार राज्य विधान मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ।— (1) यह अधिनियम बिहार आकस्मिकता निधि (संशोधन) अधिनियम, 2009 कहा जा सकेगा।

(2) यह तुरंत प्रवृत्त होगा।

2. बिहार अधिनियम 19, 1950 की धारा-4 का संशोधन।— बिहार आकस्मिकता निधि अधिनियम, 1950 (बिहार अधिनियम 19, 1950) (जिसे इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा-4 के परन्तुक के लिए निम्नलिखित परंतुक प्रतिस्थापित किया जायेगा :—

“परन्तु बिहार आकस्मिकता निधि (संशोधन) अधिनियम, 2009 के आरंभ की तिथि से प्रारम्भ होकर 31 मार्च, 2010 तक की अवधि के दौरान इस धारा का प्रभाव इस उपांतरण के अधीन रहते हुए रहेगा कि शब्द “तीन सौ पचास करोड़” शब्द के स्थान पर शब्द “एक हजार पाँच सौ करोड़” द्वारा प्रतिस्थापित किये जायेंगे।”

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
दिलीप कुमार सिन्हा,
सरकार के संयुक्त सचिव।

10 अगस्त 2009

सं० एल०जी०-1-13/2009/लेज-56— बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित और राज्यपाल द्वारा दिनांक 7 अगस्त 2009 को अनुमत बिहार आकस्मिकता निधि (संशोधन) अधिनियम, 2009 का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन उक्त अधिनियम का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
दिलीप कुमार सिन्हा,
सरकार के संयुक्त सचिव।

[BIHAR ACT 7, 2009]
THE BIHAR CONTINGENCY FUND (AMENDMENT) ACT, 2009

AN
ACT

TO AMEND THE BIHAR CONTINGENCY FUND ACT, 1950 (BIHAR ACT 19 OF 1950)

WHEREAS, the State is in grip of irregular Monsoon and has affected agricultural activities adversely due to fall in ground water level scarcity of drinking water is likely and there is every possibility of flood in some areas of the State.

AND, WHEREAS, relief and rehabilitation measures may have to be undertaken on an emergent and massive scale;

NOW, THEREFORE, be it enacted by the Legislature of the State of Bihar in the sixtieth year of the Republic of India as follows:-

1. *Short title and commencement.*—(1) This Act may be called the Bihar Contingency Fund (Amendment) Act, 2009

(2) It shall come into force at once.

2. *Amendment of section 4 of Bihar Act 19 of 1950.*— For the proviso to section 4 of the Bihar Contingency Fund Act, 1950 (Bihar Act 19 of 1950) shall be substituted, as follows :-

"Provided that during the period beginning on the date of commencement of the Bihar Contingency Fund (Amendment) Act, 2009 and ending on 31st day of March 2010 this section shall have effect subject to the modification that for the words 'three hundred and fifty crores' shall be substituted by the words 'One thousand five hundred crores'.

By order of the Governor of Bihar,
DILIP KUMAR SINHA,
Joint Secretary to Government.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 412-571+400-डी०टी०पी०।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>